

आशुलिपिक ग्रेड ' ग ' और 'घ' परीक्षा, 2019 - अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षा में बैठने हेतु बुलाने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) के परिणाम की घोषणा

कर्मचारी चयन आयोग ने देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आशुलिपिक ग्रेड ' ग ' और 'घ' परीक्षा, 2019 के लिए दिनांक 22.12.2020 से 24.12.2020 तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की थी।

2. चूंकि कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई पालियों में आयोजित की गई थी, आयोग ने अपनी वेबसाइट पर दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित सूत्र के अनुसार अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का सामान्यीकरण किया है। परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा -12 (घ) के तहत प्रावधानों के अनुसार, अभ्यर्थियों के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग परीक्षा के अंतिम चरण (अर्थात कौशल परीक्षण) के लिए उनकी अर्हता निर्धारित करने हेतु परिणाम तैयार करने के लिए किया गया है।

3. कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर, 1215 अभ्यर्थियों को आशुलिपिक ग्रेड 'ग' पद के लिए कौशल परीक्षा में बैठने हेतु अनंतिम रूप से अर्हक घोषित किया गया है और 7792 अभ्यर्थियों को आशुलिपिक ग्रेड 'घ' पद के लिए कौशल परीक्षा में बैठने हेतु अनंतिम रूप से अर्हक घोषित किया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धारित कट-ऑफ अंक और विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

सूची-1: आशुलिपिक ग्रेड 'ग' के लिए आशुलिपि में कौशल परीक्षा के लिए अर्हताप्राप्त अभ्यर्थी:

श्रेणी	कट-ऑफ अंक	उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या
अनुसूचित जाति	138.69504	216
अनुसूचित जनजाति	130.94753	56
अन्य पिछड़ा वर्ग	152.42890	253
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	149.83718	166
अनारक्षित	153.94071	421
दृष्टि दिव्यांग	70.99499	103
कुल		1215

नोट-1: ऊपर दर्शाए गए अना. अभ्यर्थियों के अतिरिक्त 30-अ.जा., 6- अ.ज.जा., 198- अ.पि.व. और 93-आ.क.व. श्रेणी के अभ्यर्थियों ने अनारक्षित कट-ऑफ में अर्हता प्राप्त की है। इन अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों में दर्शाया गया है।

सूची II: आशुलिपिक ग्रेड 'घ' के लिए आशुलिपि में कौशल परीक्षा के लिए अर्हताप्राप्त अभ्यर्थी:

श्रेणी	कट-ऑफ अंक	उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या
अनुसूचित जाति	120.01819	1085
अनुसूचित जनजाति	96.73246	716
अन्य पिछड़ा वर्ग	133.10093	1844
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	122.91942	1246
अनारक्षित	134.53552	2237
भूतपूर्व सैनिक	40.00000	265
अस्थि दिव्यांग	77.84229	22
दृष्टि दिव्यांग	63.65861	130
अन्य शारीरिक दिव्यांग	46.54037	42
कुल		7792

नोट-2: ऊपर दर्शाए गए अना. अभ्यर्थियों के अतिरिक्त 322-अ.जा., 36- अ.ज.जा., 1650- अ.पि.व., 638-आ.क.व., 4- भू.पू.सै., 7- अ.दि., 9- दृ.दि. और 1- अन्य शा.दि. श्रेणी के अभ्यर्थियों ने अनारक्षित कट-ऑफ में अर्हता प्राप्त की है। इन अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों में दर्शाया गया है।

नोट-3: परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 16 (ग) के अनुसार , कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:

अना. : 30%

अ.पि.व. /आ.क.व.: 25%

अन्य सभी श्रेणियां (अ.जा., अ.ज.जा. ,शा.दि., भू.पू.सै. आदि): 20%

4. कौशल परीक्षा के लिए समय-सारणी के बारे में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शीघ्र सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

5. उत्तर-कुंजियों के संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और जहां भी आवश्यक समझा गया है, उत्तर-कुंजियों को संशोधित किया गया है। इन अंतिम उत्तर-कुंजियों का उपयोग मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। अंतिम उत्तर-कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 26.03.2021 से 25.04.2021 तक अपलोड रहेंगी।

6. अर्हताप्राप्त/गैर-अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों के अंक दिनांक 23.03.2021 को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सुविधा दिनांक 23.03.2021 से 13.04.2021 तक उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी अपने पंजीकरण संख्या और पंजीकृत पासवर्ड का उपयोग करके डैशबोर्ड पर परिणाम/अंक पर क्लिक करके अपने अंक देख सकते हैं।

अवर सचिव (गो.-1/2)

19.03.2021